



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1937 (श0)

(सं0 पटना 1251) पटना, शुक्रवार, 6 नवम्बर 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

16 अप्रैल 2015

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2013-1768—श्री प्रेमचन्द साहु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आसवनगृह रीगा, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी, नवादा, बेगुसराय एवं शिवहर वेयर हाउस को निर्धारित मूल्य से 4/- (चार) रुपये अधिक का विपत्र उनकी उपस्थिति एवं जानकारी में दिया जाना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-2824 दिनांक 04.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उपायुक्त उत्पाद (आ0भा0)-सह-संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-405 दिनांक 28.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-2 को आंशिक रूप से प्रमाणित बतलाया गया है।

3. श्री साहु दिनांक 30.04.2014 को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रमाणित नहीं है, उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री साहु से प्राप्त बचाव बयान के पूर्ण समीक्षोपरांत श्री साहु को आरोप से मुक्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1251-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>